

प्रधानमंत्री 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम से विद्यार्थियों का बढ़ाते हैं हौसला : धामी

परीक्षा पर चर्चा

8 जी.जी.आई.सी. कोलागढ़ में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा से पूर्व बच्चों को जिस प्रकार उनके माता-पिता और परिजनों की ओर से मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से देश के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हैं। जी.जी.आई.सी. कोलागढ़ में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छपरिक्षा पर चर्चा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

हम आपको तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री ने स्नेहा की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि उनकी 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद की कक्षा 07 की छात्रा स्नेहा त्यागी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि

आत्मविश्वास है कि देश के 140 करोड़ देशवासियों उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छपरिक्षा पे चर्चा के दौरान तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी, सारगर्भित और व्यावहारिकता से परिपूर्ण उद्बोधन सुनने का अवसर मिला। हमारा सम्पूर्ण जीवन एक परीक्षा है और इस परीक्षा में हार और जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि हमारी सकारात्मक सोच, क्योंकि एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन की किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। 'मन की बात' हो या 'परीक्षा पे चर्चा' इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने

परीक्षा में भाग ले रहे छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अपील की कि परीक्षा के समय बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि अपने जीवन में कार्य करने के लिए जो भी क्षेत्र चुनें, उसमें लौंडर की भूमिका में कार्य करें। जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करना है, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तन्मयता से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा का आंकलन किसी भी एक परीक्षा में सफल या असफल होने पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिभा तथा बौद्धिक क्षमता किसी भी परीक्षा से ऊपर है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि महान लोगों की जीवनी जरूर पढ़ें। इससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। समाज में बड़े कार्य करने वाले अधिकांश लोग सामान्य परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं।

कब्जा करने की नीयत से बनाए जा रहे मंदिर को प्रशासन ने हटाया



त्रिभुक्तेश्वर/टीएम एक्शन इंडिया आईएसबीटी स्थित चंद्रभागा नदी के निकट मंदिर की आड़ में कब्जा किए जाने की नीयत से बनाए जा रहे कथित मंदिर को नगर निगम प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आईएसबीटी स्थित खोखा युनियन के कुछ लोगों ने चंद्रभागा नदी के निकट मंदिर की आड़ में कब्जा किए जाने की नीयत से पहले से रखे गए शिवलिंग के बाद शनि का मंदिर बनाए जाने की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई को अमली जामा पहनाते हुए सोमवार की सुबह अतिक्रमण पर

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसका विरोध करने आए खोखा युनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर जाटव, दलबीर सिंह, अरविंद सिंह को नगर निगम प्रशासन ने समझाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। नंद किशोर जाटव का कहना था कि इस संबंध में नगर निगम के मुख्य आयुक्त से मिलकर एक बार फिर मंदिर बनाए जाने के लिए आग्रह किया जाएगा, इसके बाद इस मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। मंदिर हटाए जाने को लेकर आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में 10-15 लोगों ने विरोध भी किया।

बाल-बाल बची जवानों की जान

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया

हरिद्वार-दिल्ली हाइवे पर एक नारसन में एक अनियंत्रित ट्रक पुलिस चेक पोस्ट में जा घुसा। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। एक ट्रक हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रहा था। सोमवार की अल सुबह ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर नारसन हाइवे पर बने पुलिस चेक पोस्ट में जा घुसा। ट्रक को अपनी ओर आता देख चेक पोस्ट में तैनात होमगार्ड के जवान जान बचाने के लिए दौड़े। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। होमगार्ड के जवानों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से



फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और ट्रक को क्रैन की मदद से उठाकर

चौकी ले आई। हादसे का कारण चालक को नौद की झपकी आना बताया जा रहा है।

चोरी के आटो के साथ आरोपित गिरफ्तार

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया

श्री व्हीलर चोरी करने के आरोपित को नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी किए वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया है। अशोक कुमार रिहान पुत्र कर्मचन्द निवासी भोलागिरी रोड, गंगा आश्रम हरिद्वार का 19 जनवरी को श्री व्हीलर चोरी हो गया था। इस संबंध में अशोक ने अज्ञात के खिलाफ प्रार्थमिकी दर्ज करायी थी।



आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस ने आज आरोपित को चोरी किए श्री व्हीलर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पृथलाछ में आरोपित ने अपना नाम व पता सागर पुत्र सुशील कुमार गुप्ता निवासी ग्राम केहड़ा कोतवाली लक्सर हरिद्वार बताया।

कृषि मंत्री ने 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के 07वें संस्करण को देखा

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया

मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के 07 वें संस्करण को सुना और देखा। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों से संवाद किया गया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त परीक्षा और ज्ञानवर्धक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी



की चाहे मन की बात कार्यक्रम हो या परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो उनके प्रत्येक कार्यक्रम में कई रोचक जानकारी मिलने के साथ साथ प्रेरणादायक बातें जानने का अवसर मिलता है। उन्होंने सभी से

इस प्रकार के कार्यक्रमों को अवश्य सुनने की अपील भी की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी।

जमीन दिलवाने के नाम पर की धोखाधड़ी, मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त में



हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित के पति के हस्ताक्षरयुक्त पांच चैक भी बरामद किए हैं। 124 जून 2023 को ग्राम घीस्वरपडी डोईवाला देहरादून निवासी राखी वर्मा ने न्यायालय के आदेश पर थाना भगवानपुर में नीरज कुमार, विरेन्द्र प्रधान व रमन सिंह पाल के जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित के मुताबिक आरोपितों ने भगवानपुर हरिद्वार में खेड़ी शिकोहपुर गांव में सस्ती दरों पर जमीन दिलवाने के नाम पर पीड़िता व उनके पति के साथ 08 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। सौदे के शेष रुपये 14 लाख रुपये के बैंक चैक हस्ताक्षरित ले लिये। जानकारी करने पर पता चला कि

दिखाई गई जमीन विक्रेता रमन सिंह पाल के नाम पर न होने के बावजूद उपनिबन्धक कार्यालय रुड़की से जमीन फर्जी रजिस्ट्री तैयार की गई। इसके आधार पर जांच में धाराओं की बढ़ती की गयी। जांच में पता चला की जमीन तलाश रही महिला राखी वर्मा व उनके पति का सम्पर्क आरोपित नीरज कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खेड़ी शिकोहपुर गांजा मजरा थाना बुगावाला जनपद हरिद्वार से हुआ। खुद का परिचय प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर देते हुए नीरज कुमार ने दंपति को वर्ष 2020 में हरिद्वार बुलाकर ग्राम खेड़ी शिकोहपुर भगवानपुर में एक जमीन दिखाकर करीब 12 बीघा जमीन का सौदा 22 लाख रुपये में तय करते हुए बताया कि जमीन का मालिकाना हक रमन सिंह पाल के नाम पर है।

उत्तराखंड: लिवर रोगों में गिलोय की उपयोगिता को अब ब्रिटिश फार्मा ने भी माना

अनुसंधान

8 गिलोय पर लिवर को स्वस्थ रखने के साथ कोशिकाओं का क्षरण रोकने तथा लिवर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया गिलोय के हेपटोप्रोटेक्टिव (लिवर को स्वस्थ रखने की क्षमता) और अन्य लाभकारी प्रभाव को अब यूनाइटेड किंगडम ने भी स्वीकार किया है, जिसे रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल ह्युमन लिवर ऑफ फार्मसी एण्ड फामाकोलॉजी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है। यह जानकारी उत्तराखंड के



हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ की ओर से दी है।

यूके के जर्नल ऑफ फार्मसी एण्ड फामाकोलॉजी ने स्वीकार किया है कि

स्वयं से प्रतिस्पर्धा का मोटी का सूत्र आत्मसात करें युवा: रविन्द्र

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया एसएमजेएन कॉलेज में आज परीक्षा के तनाव से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लाइव छात्र-छात्राओं के समुख प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्र-छात्राओं को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये। प्रधानमंत्री ने बच्चों को सुझाव दिया कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को परीक्षा की तरह ही लेना चाहिए न



कि जीवन की परीक्षा की तरह। उन्होंने बच्चों को अहम सुझाव

दिया कि लक्ष्य हमारी पहुंच में हो। हमें अपना मूल्यांकन स्वयं करना

चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के पीछे भागना नहीं होना चाहिए अपितु कुछ ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। संगीत में वह सामर्थ्य है कि वह सभी प्रकार के तनाव को दूर सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य छात्रों के भविष्य को संवारना है और उनको अपने कार्य को केवल व्यावसायिक नजरिये से न देखकर छात्र-छात्राओं से एक आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में देखा जाए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों से भी बातचीत की।

गढ़वाली फीचर फिल्म पितृकुड़ा दो फरवरी को होगी रिलीज



देहरादून/मसूरी/टीएम एक्शन इंडिया

पितरों के प्रति उत्तराखंड की अनोखी परम्परा पर बनी गढ़वाली फीचर फिल्म पितृकुड़ा दो फरवरी को रिलीज की जाएगी। आज मसूरी में फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर लांच किया गया। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक प्रदीप भण्डारी ने बताया कि केदारखंड क्षेत्र की अद्वितीय परम्परा पितृकुड़ा (लिंगवास) पर बनी यह फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जो परिवार के भावनात्मक रिश्तों पर बनी है। सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार लोगों को पितृकुड़ा संस्कार के रूप में प्रदेश की अद्भुत संस्कृति के दर्शन होंगे। फिल्म में जबरदस्त एक्शन थ्रिलर, रोमांच, हास्य और मधुर गीत संगीत है। फिल्म प्रत्येक उम्र के दर्शक को मंत्रमुग्ध करेगी। उन्होंने बताया कि पितृकुड़ा उत्तराखंड की ऐसी पहली फिल्म है जो दादा दादी और पोता पोती के गहरे प्रेम को दर्शाएगी है। फिल्म भारतीयों और नेपालियों के सदियों पुराने मैत्रिक रिश्तों को भी दर्शाती

है। इसमें नेपाली व्यक्ति का रहस्यमयी किरदार दर्शकों को बहुत रोमांचित करेगा। फिल्म में प्रतिभावान स्टारकास्ट के अलावा, लोकेशन और बैंक ग्राउंड म्यूजिक, गीत-संगीत श्रेष्ठ और कर्णप्रिय रास गाना है। फिल्म की शूटिंग मसूरी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, चोपता आदि रमणीक स्थलों पर हुई है। भण्डारी ने आंचलिक संस्कृति और सिनेमा को सबल बनाने के लिए उत्तराखंड से जनमानस से फिल्म पितृकुड़ा के प्रचार प्रसार से लेकर फिल्म देखने की अपील की है। इस अवसर पर फिल्म की सह निर्मात्री कमलेश भण्डारी भी मौजूद रहीं। पर्वतीय बिगुल फिल्मस के बैनर पर बनी फिल्म पितृकुड़ा के लेखक एवं निर्देशक हैं प्रदीप भण्डारी और डीओपी व एडिटर नागेन्द्र प्रसाद एवं सहायक निर्देशक विजय भारती हैं। फिल्म का बैंक ग्राउंड म्यूजिक, डबिंग और फॉकलोर युवा संगीतकार आशीष पन्त एवं साथियों ने तैयार किया है। फिल्म बनने में 2 साल से अधिक का समय लगा है।

बाल यौन उत्पीड़न और शोषण सुरक्षा के प्रति किया जागरूकता

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया

सामाजिक संस्था फोरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी ने डालानवाला स्थित एक विद्यालय में आयोजित कार्यशाला में बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षा के प्रति जागरूकता किया। इस कार्यशाला में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉ. पवन शर्मा (द साइकेडेलिक) ने अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़ी कई जानकारियां दी और बाल यौन उत्पीड़न और शोषण के विषय पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में बाल यौन शोषण और बच्चों से दुष्कर्म के मामले 96 फीसदी बढ़



गये हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के विश्लेषण के ये बात सामने आई है कि साल 2006 से 2022 तक बच्चों से दुष्कर्म के मामले 96

फीसदी बढ़े हैं। जान जागरूकता में सुधार के बाद बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के अधिक मामले दर्ज कराये गये हैं। इस सम्बंध में हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टलों और

विशेष एजेंसियों के माध्यम से पीड़ित और उनके परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सामने आये हैं। विश्लेषण से पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच इन मामलों में 9.6 फीसदी वृद्धि हुई थी। 2016 में दर्ज मामलों की संख्या जहाँ 19,765 थे वहीं 2022 में ऐसे 38,911 मामले दर्ज किए गए हैं। डॉ. पवन शर्मा ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न और शोषण के मुद्दे पर खुल कर चर्चा करने से सामाजिक चुप्पी काम होगी और बाल यौन उत्पीड़न और शोषण पर खुल कर चर्चा करने को प्रोत्साहित करने से बिना किसी डर के बोलने से दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिक रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे।

बच्चों को सही-गलत स्पर्श की शिक्षा देना और माता-पिता के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना ऐसे मामलों में सुरक्षा का बेहतरीन उपाय है। जब भी कभी बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखे और बच्चे गुमसुम सा रहने लगे तो माता-पिता और शिक्षकों को बच्चे से बात करनी चाहिए या किसी पेशेवर काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। गौरतलब है कि फोरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी ऐसे मामलों में निशुल्क परामर्श और थैरेपी की सुविधा प्रदान करती है। इस मौके पर भूमिका भट्ट शर्मा, सुनिष्ठा सिंह और एडवोकेट कुलदीप भारद्वाज ने भी अभिभावकों से साथ संवाद किया।

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम परीक्षाओं को नई दृष्टि देखने का नजरिया विकसित करता है : राज्यपाल

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया राज्यपाल ने कहा कि 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम परीक्षाओं को एक नई दृष्टि देखने का नजरिया विकसित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं के तनावयुक्त वातावरण से मुक्ति पा सकेंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।



राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेन) ने सोमवार को दूर इंटरनेशनल स्कूल, पौधा में 'परीक्षा पे चर्चा-2024' कार्यक्रम में शामिल होते हुए यह बातें कहीं। इस दौरान 'परीक्षा पे चर्चा' के 7वें संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन करने के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू किये गए इस कार्यक्रम से बच्चों को लाभ मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों की उत्सुकता, शिक्षकों और अभिभावकों की चिंता

वक्तव्य में परीक्षाओं को बोझ के तरह न लेते हुए बच्चे परीक्षाओं को आनंद, उत्सव के रूप में ले प्रधानमंत्री ने छोटी-छोटी बातें बताई हैं लेकिन यह जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं और यह छोटी-छोटी बातें ही हैं जो हमारे जीवन का रुख बदल देती हैं। राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग प्रतिभा होती है उसे पहचानने की जरूरत है। आप दूसरों को अपना प्रतिस्पर्धी न मानें बल्कि, आपकी प्रतिस्पर्धा अपने आप से होनी चाहिए। जीवन में आप तय किया है उसे पूरा करने में अपना सामर्थ्य लगाएं। जीवन में कठिन परिश्रम का कोई प्रतिस्थान नहीं है, बच्चे हर कार्य में हमेशा

अतिरिक्त प्रयास करें। राज्यपाल ने बच्चों से कहा कि आप सभी देश के बड़े संसाधन हैं, आपके बूते ही भारत विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आप सभी अपने योगदान से राष्ट्र और समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन, अपर निदेशक समग्र शिक्षा मुकुल कुमार सती, स्कूल के चेयरमैन डी. एस. मान, वाइस चेयरमैन एच. एस. मान, स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल श्रीमती एन. के. मान, निदेशक सोनिका मान सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का किया पलैग ऑफ

सहूलियत

8-ट्रेन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र के रामभक्तों को सहूलियत होगी



हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से अयोध्या के मध्य आस्था स्पेशल ट्रेन के संचालन की शुभकामनाएं देते हुए ट्रेन के संचालन पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित गढ़वाल व कुमाऊं

क्षेत्र के रामभक्तों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हम सभी ने कितना संघर्ष किया, अब हमें उस संघर्ष का प्रतिफल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। उन्होंने कहा कि जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से वर्षों पुराना ये स्वप्न साकार हुआ, जिनकी तपस्या राममंदिर में नांव की भांति जुड़ी हुई है, मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ।

संक्षिप्त खबरें

मिलावटी मावा की आढ़त में कमिश्नर दीपक ने की छापेमारी

हल्द्वानी/टीएम एक्शन इंडिया हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर आज कमिश्नर दीपक रावत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कमिश्नर ने अपने कैम्प ऑफिस से ओके होटल, बेस हॉस्पिटल होते हुए डीके पार्क की निरीक्षण करते हुए रामलीला मोहल्ला पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मावा की आढ़त पर छापेमारी की। उन्होंने देखा कि वहां पर भारी मात्रा में मावा रखा हुआ है, जो काफी दिन पुराना है। ऐसे में उन्होंने मावा आढ़त से पूछताछ की। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने पाया गया कि खोया (मावा) में मिलावट है, जो रामनगर के ढैला और टांडा के खते से आता है, जिसके लेनदेन का भी हिसाब काफी गड़बड़ है। मावा का सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी किसी भी कोमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मावे के सैंपल को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। फिलहाल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की कार्रवाई जारी है।

नैब संस्थान में लगाया स्काउटिंग कैम्प

हल्द्वानी/टीएम एक्शन इंडिया स्काउट मास्टर एवं गाइड कैम्प के एक ग्रुप के द्वारा नैब (नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड), गौलापार के बच्चों के साथ स्काउटिंग एवं गाइडिंग के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ए.मालिक तरे बंदे हम प्रार्थना के साथ हुआ। कार्यक्रम में परिचय सत्र के दौरान उपस्थित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपनी रुचि के बारे में बताते हुए अपना परिचय दिया जो बच्चों को काफी रुचिकर लगा। स्काउट मास्टर गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि बच्चों को अपने से जोड़ने एवं बच्चों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट मास्टर गौरीशंकर काण्डपाल के द्वारा सेल्फ डिफेंस, गाइड कैम्प हेमलता तथा दीपा मेहता के द्वारा गुड टच एवं बेड टच, गोपाल दत्त गुणवंत के द्वारा स्काउटिंग का इतिहास के बारे में बताया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्काउट मास्टर कमलेश कुमार सती के द्वारा आजा रे आजा मेरी सोन चिरेया आजा गीत गाय, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया। संस्थान के बच्चों के द्वारा भी हारमोनियम, तबला, ढोलक की धुन पर विभिन्न गीत सुनाए। गिरीश चंद्र जोशी के द्वारा बच्चों को शारीरिक व्यायाम के बारे में तथा हेमलता पांडे के द्वारा बच्चों के साथ लाल मेरी, मैं पहाड़न, बेजू पाको बरो मासा गीत की प्रस्तुति दी। वर्षा ताली का अभ्यास कराया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों में साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ दामिनी शाह के अतिरिक्त गीता नेगी, दीपा जोशी, दीपा पांडे, शोभा जोशी, ज्योति मेहता, राधा चैहान, हरीश पांडे, पूजा मेहता, पूजा रावत, अंजु विष्ट, प्रीति कनवाल, कविता बोरा आदि उपस्थित रहे।

नगर निगम का बुलडोजर मलिक के बगीचे में गरजा

हल्द्वानी/टीएम एक्शन इंडिया नगर में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण पर नगर निगम ने जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण को तोड़ा और एक एकड़ से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह एवं थाना बनभूलपुरा प्रभारी नीरज भाकुनी ने संयुक्त रूप यह कार्रवाई की। अतिक्रमण मुक्त इस जमीन पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है। जमीन के बगल में एक मदरसा और मस्जिद भी बनी हुई है, जिसके पेपर चेक किए जा रहे हैं। यदि दस्तावेज गलत पाएंगे तो मदरसे और मस्जिद पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया मलिक का बगीचा जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज तोड़ा गया है और नगर निगम ने इस पर कब्जा ले लिया है। जिसको नगर निगम अपने कामकाज में लाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा शासन से सख्त निर्देश है जो भी अतिक्रमण शहर में हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में आज यह कार्रवाई की गई है।

चोर गैंग के लीडर समेत दो गिरफ्तार

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित गैंग लीडर व उसके एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों का चालान कर दिया है।

कोतवाली गंगनहर रुड़की में दर्ज मुकदमा संख्या 01/24 गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपितों की तलाश में दबिश देते हुए पुलिस ने गैंग लीडर अमन कुमार उर्फ मच्छी पुत्र रामकुमार निवासी माता वाला बाग पुरानी तहसील रुड़की व अजय धीमान उर्फ फिल्टर पुत्र सतीश धीमान निवासी पुरानी तहसील रुड़की को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ चोरी के तीन मुकदमे दर्ज हैं।

नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत गौचर में आयोजित होगा नंदा गौरा महोत्सव

महोत्सव 8 चमोली प्रशासन की ओर से गौचर में 15 फरवरी को नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

गोपेश्वर/टीएम एक्शन इंडिया मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर डीएम और एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। महिला सशक्तिकरण को लेकर चमोली जिला प्रशासन की ओर से गौचर में 15 फरवरी को नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। गौचर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित



कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने संयुक्त रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने समय से सभी व्यवस्थाएं

चाक चौबंद रखने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने गौचर हवाई पट्टी से लेकर मेला मैदान तक सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर मंच एवं सीटिंग अरेंजमेंट, स्टॉल, यातायात, वाहन पार्किंग, पेयजल, जिला प्रशासन चमोली में नंदा-गौरा महोत्सव मनाने जा रहा है। मां नंदा देवी की चमोली जिले के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा की जाती है और ध्यांग (विवाहित बेटी) की भांति स्नेह किया जाता है। जबकि गौरा पर्वतीय क्षेत्र की मातृशक्ति की चिपको आंदोलन में अगुवा रही है, जिसके चलते गौरा देवी को संघर्षशील पर्वतीय नारी के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से गौचर में नंदा-गौरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जनपद चमोली के सभी विकासखंडों से हजारों की संख्या में महिलाएं प्रतिभाग करेंगी।

देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा: विनोद नए केंद्र

ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया नगर निगम ऋषिकेश के स्वच्छता ब्राण्ड अम्बेसडर और शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास प्रान्त पर्यावरण संयोजक पर्यावरणविद विनोद जुगलान ने कहा कि देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए न्यास की ओर से प्रयासों को धरातल पर सुसंगठित प्रबन्धन पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरणविद विनोद ने कहा बीते तीन दिनों में न्यास के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (पांच प्रान्तों) के संयोजक डॉ. जगाम भाई के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रान्त न्यास संचालन समिति ने सूरजमल विश्व विद्यालय किच्छ, एमबी पीजी कालेज हल्द्वानी सहित जीबी पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी

पेयजल कर्मियों में आक्रोश

हल्द्वानी/टीएम एक्शन इंडिया जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित पेयजल और सीवरज कार्यों को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूएसडीए) के हाथों में सौंपा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है सोमवार को जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में नैनीताल रोड स्थित जल निगम कार्यालय पर धरना दिया। संयुक्त मोर्चा के मंडल संयोजक शीतल साह और संजय जोशी ने कहा कि जिन कार्यों को जल निगम और जल संस्थान करते आए हैं, उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से कराने के पीछे सरकार और शासन की भंगा केवल पेयजल सेक्टर का निजीकरण करना है।

हरीश रावत विस्थापितों के भूमिधरी अधिकार की मांग को लेकर रखेंगे मौन उपवास



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र हरिद्वार के पथरी के विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार देने के लिए 01 फरवरी को मौन उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्र की प्रगति और भारत रूस मैत्री का जीवांत स्तंभ टिहरी डैम उत्तराखंड का अभिमान है। जहां-जहां वे विस्थापित भाई-बहन बसे, आज भी कई कठिनाइयों को झेल रहे हैं और इनसे किए गए कई वादे भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। इन विस्थापितों में सबसे चिंताजनक स्थिति हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के भाग 1, 2, 3, 4, में बसे भाई-बहनों को है। 42 वर्षों बाद भी यह लोग जिस भूमि में बसे हैं उसका भूमिधर का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है यह लोग जोते जा रहे खेतों व अपने घरों के मालिक नहीं हैं। इन्हें बैंकों सहित कोई भी ऋण सुविधा भूमि के आधार पर लेने का अधिकार नहीं है। स्वामी होते हुए भी स्वामित्व से वंचित हैं। इन्हें सामान्य ग्राम वासी को प्राप्त कोई हक हकूक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक देने के निर्देश जारी किए और पत्रावली तैयार करवाई गई। सत्ता परिवर्तन के साथ यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में स्थानीय विधायक की ओर से इस मामले को विधानसभा संचालन नियमावली के नियम 58 के अंतर्गत उठाये जाने पर सरकार ने इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। तदुपश्चात हरिद्वार जनपद के विधायकों की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री ने इस हेतु आवश्यक पत्रावली तैयार करने के आदेश दिए। जिस पर 8 माह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस दौरान वन विभाग द्वारा करवाए गए एक तथाकथित सर्वेक्षण में टिहरी विस्थापितों के पास आवंटित 912 एकड़ भूमि के बजाए 968 एकड़ भूमि पर कब्जेदार बताए जाने के बाद सारे मामले को उलझाया जा रहा है।

हरिशंकर-चोपड़ा मोटर मार्गको लेकर तहसील पर किया प्रदर्शन

ज्ञापन भेजा

8 ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है।



गोपेश्वर/टीएम एक्शन इंडिया चमोली जिले के पोखरी नगर पंचायत के हरिशंकर-चोपड़ा मोटर मार्ग की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी स्वीकृति न मिलने से गुस्साये ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील में विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। क्षेत्र के ग्रामीण संतोष चैधरी, कुंवर सिंह चौधरी ने कहा हरिशंकर-चोपड़ा मोटर मार्ग जिसकी लंबाई

चार किलोमीटर है को तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है जबकि ग्रामीण लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार करते आ रहे हैं। सड़क की स्वीकृति न मिलने से

क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि चोपड़ा, किमौर, नखोलियाणा, चरकोटी, खडकी, क्षेत्रपाल, धार, गोदी, पोखरी के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सड़क

की स्वीकृति नहीं मिली तो सभी गांव के लोग ने लोकसभा और निकाय चुनाव का ७ पन्त, मंदोदरी पन्त, राजेंद्र कोटियाल, संतोष टण्टा, मधुसूदन चौधरी आदि मौजूद थे।

सरकारी कार्यालयों में 'सर्वर डाउन' की समस्या आम, जनता परेशान

परेशानी

8 सरकारी कर्मों अपनी ओर से आधेएक घंटे में सर्वर के ठीक होने की भविष्यवाणी करते देखे जाते हैं



नैनीताल/टीएम एक्शन इंडिया जनता के कार्यों से सीधे जुड़े सरकारी विभागों में सर्वर का डाउन न जाने वास्तविक समस्या है या सरकारी कर्मियों का काम के बीच आराम करने का तरीका, लेकिन यह समस्या जनता को अत्यधिक परेशान कर रही है। चाहे बिजली-पानी के बिलों का भुगतान करना हो या डाकघर में रुपये जमा करना, चिट्ठियों को

रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कराना या आधार कार्ड में सुधार आदि करवाना, अक्सर इन कार्यों के लिये सामने की सीट पर बैठे सरकारी कर्मियों से सामने खड़े लोगों को यही सुनना पड़ता है। इस कारण सामने लंबी लाइनें लग जाती हैं और सभी लोगों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। ऐसे में कई बार

कार्यों को बिना सर्वर की कोई समस्या झेले स्वयं मिनटों में निपटा लेते हैं। सभी उपभोक्ता स्वयं बिलों का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते हैं, इसलिये परेशान होते हैं। हर माह बिजली का बिल आने से परेशानी - नैनीताल जनपद के भीमताल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बृजवासी ने बताया कि आज उन्होंने स्वयं विद्युत विभाग कार्यालय जाकर आम जनता को रही परेशानी का जायजा लिया तो देखा कि नगर की स्थानीय जनता एवं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आएं बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लाइन में खड़ी जनता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

खड़ी कर रही हैं, लोगों का कहना है पहले बिजली विभाग 2 महीने में बिल भेजता था जबकि अब हर महीने बिल आने से हर महीने लाइन में खड़ा कर रहा है। हर महीने बस विभाग का सर्वर डाउन रहता है। बार-बार ठीक करने की मांग पर भी बिजली विभाग लोगों को हो रही परेशानी को अनदेखा कर रहा है। बृजवासी ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र सर्वर की परेशानी को दूर करने एवं भीड़ होने पर वैकल्पिक तरीके से कार्य कर आम जनता को राहत देने की मांग की है, ताकि आम जनता को बिल आदि जमा करने के कार्यों में सहूलियत मिल सके।

ऋषिकेश के 32 राम भक्तों को अयोध्या दर्शन के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने किया रवाना

ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया अयोध्या में विगत 22 जनवरी को स्थापित भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उत्तराखंड के 1500 राम भक्तों की श्रृंखला में ऋषिकेश से 32 लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और तिलक कर हरिद्वार स्टेशन के लिए रवाना किया गया।



सोमवार की सुबह आदर्श ग्राम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अयोध्या जाने वाले सभी राम भक्त एकत्रित हुए जहां उनका स्वामी हर्यग्रिवा आचार्य ने तिलक लगाकर उनके साथ अपने अयोध्या दर्शन के

अनुभव साझा किये। सभी राम भक्त अक्षत पूजित कार्यक्रम के संयोजक दीपक तायल, नगर संघ चालक भारत भूषण, जिला व्यवस्था प्रमुख सदीप मल्होत्रा, घनश्याम अरोड़ा, सह जिला कार्यवाह राकेश शर्मा, सुदामा सिंगल, जिला कार्यवाह हरीश ने माल्यार्पण कर सभी राम भक्तों को स्कूली बैगड की धुन पर रवाना किया।

न्यूज फ्लैश

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाया



टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। सामाजिक संस्था रॉबिन हुड आर्मी की ओर से चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत सामाहिक अकादमी ड्राइव और फूड ड्राइव आयोजित की गई। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने सबसे पहले सेक्टर 32 के उद्यम सिंह चौक की झुग्गी झोपड़ी के 40 बच्चों को अकादमी में पढ़ाया और उन्हें विभिन्न विषयों पर जागरूक किया।

संस्था के शहरी प्रतिनिधि राज यादव ने बताया कि उनकी टीम की ओर से यह गतिविधि हर सप्ताह की जाती है और साधनहीन बच्चों को शिक्षित करने के लिए हरसंभव प्रयास करती है। रॉबिन हुड आर्मी के सदस्यों की इस सामाजिक पहल का समर्थन करते हुए गुडरिच फूडटेक कंपनी ने 100 लोगों के खाने के लिए सहयोग किया, जिससे टीम ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मरीजों और उनके करीबियों में तथा महावीर दल मंदिर के पास जरूरतमंद लोगों में वितरित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य गौरी, नंदिनी, श्रेया, शाइनी, हर्ष, हर्षित एवं राज उपस्थित थे। राज यादव ने बताया कि रॉबिन हुड आर्मी किसी भी प्रकार का चंदा या आर्थिक दान स्वीकार नहीं करती। उन्होंने शहर के लोगों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से निवेदन करते हुए कहा कि शादी समारोह, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में जो अतिरिक्त भोजन बच जाता है, कृपया उसको फेंके नहीं सिर्फ हमारी टीम को (9149218875) कॉल करें। उनकी टीम खुद आकर आपके स्थान से खाना एकत्र करके जरूरतमंद लोगों में बांटेगी।

बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस ने हरियाणा के रोहतक शहर में अपने नए ऑफिस के उद्घाटन की घोषणा की

रोहतक। भारत की प्रमुख प्राइवेट जनरल इश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस ने हरियाणा के रोहतक शहर में अपने नए ऑफिस के उद्घाटन की घोषणा की है। इस रणनीतिक विस्तार का उद्देश्य भारत के टिटर 2 और टिटर 3 शहरों में बीमा की उपलब्धता को बढ़ाना और भारत के नागरिकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जोखिम और अनिश्चितताएं भी बढ़ रही हैं। अपनी विशेषज्ञता के साथ, बजाज आलियांज का उद्देश्य है रोहतक की जनता को अपने नए उत्पाद और समाधान प्रदान करना। कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं प्रदान करेगी। नए ऑफिस के उद्घाटन पर अपनी बात कहते हुए, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस में, नेशनल हेड- जियो, श्री अमितेश आनंद ने कहा, "आज की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में, अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके महत्व और लाभों की पूरी जानकारी न होने के कारण देश में बहुत कम लोग बीमा का लाभ उठा पाते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण बीमा समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित, हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। टिटर 2 और टिटर 3 क्षेत्रों में खोले गए ऑफिसों के माध्यम से हमारे नेटवर्क का विस्तार हमें बीमा के प्रति जागरूकता और पहुंच के बीच के अंतर को खत्म करने के एक कदम करीब लाएगा, जिससे बीमा सेवाओं का लाभ उठाना सुबह हो जाएगा। रोहतक में अपने नए ऑफिस के उद्घाटन के साथ, हमारा उद्देश्य आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को अपने बीमा उत्पाद और संबंधित समाधान व सेवाएं प्रदान करना है, ताकि उनकी सभी बीमा आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

गली-मोहल्लों में आतंक मचाने वाले बंदरों से मिलेगी मुक्ति: अभिषेक मीणा

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। गली-मोहल्लों में आतंक मचाकर नागरिकों को परेशान करने वाले बंदरों को पकड़ें? का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि बंदरों को पकड़ें? के लिए एक निजी फर्म को काम सौंपा गया है और पिछले दो-तीन दिनों से अभियान को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान में अब तक बंदर पकड़ें? वाली टीम द्वारा शहर के प्रेम नगर, राम नगर व एफ.सी.आई. गोदाम इत्यादि क्षेत्र से करीब 35 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। सभी



बंदरों का पशु चिकित्सालय से मेडिकल जांच उपरंत इन्हें टीम की निगरानी में कलेसर के जंगलों में छोड़ें? के लिए टीम रवाना हो चुकी है। रामनाथु क ने बताया कि अभियान शहर के तमाम बंदर पकड़ें जाने तक जारी रहेगा। जहां बंदर ज्यादा है, वहां के नागरिक निगम कार्यालय में इतला कर सकते हैं, ताकि वहां पिंजरा लगाया जा सके। नागरिक, नगर निगम के टोल फ्री नम्बर 1800 180 2700 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी अभियान खत्म होगा, शहर के लोगों को आतंक मचाने वाले

बंदरों से छुटकारा मिलेगा और वह भय रहित अपने घरों में रह सकेंगे तथा अपनी छतों पर घूमने के साथ-साथ सामान इत्यादि भी रख सकेंगे। बता दें कि अभियान से पहले नागरिक बंदरों से काफी परेशान थे, कुछ बच्चों व नागरिकों को बंदरों द्वारा काटे जाने की घटनाएं भी सामने आई थीं। जींद की टीम बंदर पकड़ने का कर रही काम- उन्होंने बताया कि हरियाणा के जींद से बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट की टीम इस काम को कर रही है। करीब 5-6 व्यक्ति दो से तीन पिंजरों के साथ इस काम में लगे हुए हैं। बंदरों को पकड़ने के बाद उनकी मेडिकल जांच करवाकर

उन्हें कलेसर के जंगलों में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा। निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम समय-समय पर बंदरों को पकड़ने का काम करता रहा है। इस प्रक्रिया में हालांकि सभी बंदर एक बार पकड़ में नहीं आते, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से चुस्त-चालाक जानवर है। लेकिन जैसे ही नागरिकों की शिकायतें बंदरों को लेकर आती हैं, तदनुसार इनको पकड़ने का अभियान चलाया जाता है। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि बंदरों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्हें पकड़ने का अभियान अब शुरू हो चुका है।

गन पॉइंट पर छात्रा से 10 हजार नकदी और मोबाइल की लूट

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। करनाल के नेशनल हाईवे पर गन पॉइंट पर छात्रा से लूट का मामला सामने आया है। छात्रा ने प्राइवेट वोल्वो बस ड्राइवर पर भी बस स्टैंड से 100 मीटर दूर उतारने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि एक बदमाश ने उसके सिर पर पिस्तौल तानकर उससे एप्पल मोबाइल, कैश सहित अन्य सामान छीन लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 13 निवासी छात्रा भूमिका ने बताया कि वह लुधियाना के कॉलेज में पढ़ रही है। रविवार देर शाम करीब साढ़े 6 बजे लुधियाना से करनाल के लिए एक प्राइवेट वोल्वो बस में

चली थी। देर रात करीब साढ़े 10 बजे बस ड्राइवर ने उसे सेक्टर 6-7 बस स्टैंड पर उतारने की बजाय 200 मीटर दूर कर्णेश्वर महादेव मंदिर के सामने उतार दिया। इस दौरान जब वह बस से उतरी तो वहां से कुछ दूरी पर ही एक बदमाश खड़ा था, जिसने अपना मुंह भी ढक रखा था। जब वह आरोपी से पास से गुजरने लगी तो उसने पीछे से पिस्तौल निकालकर उसके माथे पर लगा दी और बोला तेरे पास जो भी है, जल्दी निकाल। इसके बाद डर के मारे उसने मोबाइल, पर्स सहित सारा सामान आरोपी को दे दिया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि अगर वे बात उसने किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद धक्का देकर मौके से फरार हो गया। ज्यादा अंधेरा होने के कारण वह उसका पीछा नहीं कर पाई।

पीएम श्री कुंजपुरा में हुआ मिशन बुनियाद जागरूकता कार्यक्रम



टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंजपुरा में मिशन बुनियाद एवं सुपर 100 के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में विभागीय की ओर से प्रदीप कुमार विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने विस्तार से सभी विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद कार्यक्रम के महत्व को समझाया। सुनीता कटारिया ने मिशन बुनियाद और सुपर 100 के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं को विस्तार से समझाया कि कैसे विद्यार्थी

कर्नल सत्यकाम को विशिष्ट सेवा पदक मिलने की घोषणा

हिसार: वीरता, पराक्रम व अदम्य साहस के लिए हरियाणा के वीर सैनिकों के उदाहरण दिए जाते हैं। इसी कड़ी में हिसार निवासी कर्नल सत्यकाम डबास का नाम भी जुड़ गया है। असाधारण सैन्य सेवाओं के लिए कर्नल सत्यकाम डबास का चयन विशिष्ट सेवा पदक के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नल सत्यकाम को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अब हिसार के इस रणबाहुकुरे को भव्य समारोह में विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल सत्यकाम डबास विशिष्ट सेवा मेडल की सूचना को अपने परिजनों व मित्रों से साझा करने के लिए हिसार की बैंक कॉलोनी स्थित आवास पर आए हुए हैं।

'रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य'

स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित रहा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। 166 बार रक्तदान और 80 बार प्लेटलेट्स दान कर चुके और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित डॉ. अशोक कुमार वर्मा द्वारा नागरिक अस्पताल के रक्त कोष में 485वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित रहा। शिविर में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी करनाल के सचिव कुलबीर मलिक मुख्य अतिथि के रूप में पथार हुए थे, जबकि समाजसेवी एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दिव्द्वद सचदेवा की अध्यक्षता में यह शिविर पूर्ण हुआ। पुलिस निरीक्षक रमेश मराठा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नागरिक अस्पताल के



क्षेत्रीय रक्त कोष संरचना अधिकारी डॉ. संजय वर्मा की अध्यक्षता में रक्तदान हुआ। शिविर संयोजक डॉ. अशोक कुमार वर्मा एवं अन्य अतिथियों ने मुख्य अतिथि कुलबीर सिंह मलिक को स्मृति चिन्ह भेंट कर स.मानित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक सरल और स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रिया है। यह शिविर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज कल्याण के कार्य करने चाहिए। कुलबीर सिंह मलिक ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्तदान से बढकर कोई अन्य पुण्य का कार्य नहीं है। शिविर की अध्यक्षता कर रहे दिव्द्वद सचदेवा ने कहा कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती।

बैंककर्मों की हत्या मामले में तीसरा और मुख्य आरोपी गिरफ्तार

तीसरे और मुख्य आरोपी बलराज पुत्र ओमप्रकाश वासी पांडू पिंडारा जिला जींद को कस्टा असंध से गिरफ्तार किया

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। थाना असंध की टीम ने बीते दिनों जलमाना के खेत में बैंककर्मों की तेजधार हथियार से हत्या करने के मामले में तीसरे और मुख्य आरोपी बलराज पुत्र ओमप्रकाश वासी पांडू पिंडारा जिला जींद को कस्टा असंध से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी बलराज ने हत्या का कारण अशोक बिंदल का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग बताया है। मामले में पहले ही बिद्वु पुत्र कृष्ण वासी पिंडारा और विनोद उर्फ मनोज पुत्र सुबे सिंह वासी मालौडा थाना बरवाला, हिसार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जा चुका है,



अरोपी बलराज ने बिद्वु और विनोद के साथ मिलकर योजना बनाकर हत्या को अंजाम दिया था। इस संबंध में 22 दिसंबर को महावीर वासी असंध ने शिकायत दी थी कि

उसके भाई अशोक बिंदल जो कि पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी है, की लाश जलमाना के खेत में पाई गई है। अशोक के 21 दिसंबर को घर न आने पर उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता को बताया था कि अशोक अभी तक घर नहीं आया है। जब सारी रात दूंदते हुए अगले दिन सुबह पता चला कि जलमाना के खेत में तेजधार हथियार से एक युवक की हत्या की गई है और लाश खेत में पड़ी है, जिसके पास एक मोटरसाइकिल नंबर एचआर40जी-7926 मिली है, जो कि अशोक बिंदल की है। शिकायतकर्ता को अशोक की हत्या के पीछे बलराज वासी पांडू पिंडारा, जींद का हाथ लगा। शिकायतकर्ता महावीर की शिकायत पर नामपद वासी बलराज के खिलाफ अशोक की हत्या करने के जुर्म में थाना असंध में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में थाना असंध की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बलराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलराज का न्यायालय में पेश करके दो दिन का रिमांड हासिल किया गया है।

सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर अशोक मंगालीवाला की विचारधारा का किया समर्थन

हमले में घायल हुए भाजपा नेता के घर पहुंचे सीएम



टीम एक्शन इंडिया/ करनाल/राजकुमार प्रिंस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीती देर शाम करनाल प्रवास के दौरान हमले में घायल हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने सुखीजा का हालचाल जाना और एएसपी शशांक कुमार सावन से पूरे मामले की जानकारी ली और पूछा- क्या घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा था? एसपी ने सीएम को अपडेट देते हुए बताया कि जहां पर हमला हुआ, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन अशोक सुखीजा ने एफआइआर में 6 हमलावरों के नाम लिखावा थे, जिसमें से दो कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दो अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश

संत दुर्बल नाथ की प्रतिमा का अनावरण खटीक समाज का सम्मान

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। संत दुर्बल नाथ सभा सम्पन्न खटीक समाज ने संत दुर्बल नाथ चौक में संत दुर्बल नाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। भाजपा चिकित्सा



प्रकोष्ठ के सह संयोजक एवं खटीक समाज के कोषाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण करना वास्तव में सम्मान की बात है, जो उनके

द्वारा छोड़ी गई विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार ने सभी समाजों व सभी धर्मों के संत महापुरुषों को सम्मान देने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रचार-प्रसार योजना शुरू की है। इसके माध्यम से ही प्रदेश सरकार सभी संत महापुरुषों की जयंतियां प्रदेश स्तर पर मना रही है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। इस मौके पर खटीक समाज के कोषाध्यक्ष एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ.अमित और डॉ.सुमित धारीवाल, प्रधान विजय तंवर, सचिव श्रीपाल, संजय तंवर, राकेश पवार, राजपाल जाक, मुकेश खलेरिया और संजय तंवर उपस्थित रहे।

पड़ोसी ने ऑटो में लगाई आग, 7 हजार की नकदी व दस्तावेज हुए राख

आरोपियों को रोकने का भी प्रयास किया गया,लेकिन बात नहीं बनी और ऑटो जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि ऑटो में रखी सीएनजी किट में ब्लास्ट नहीं हुआ



पड़ोसी के घर के पास खड़ा करता था। उनका अपने पड़ोसी के साथ 20 साल से प्यार है, लेकिन छोटी सी बात पर रिश्ते बिगड़ गए। कपिल ने बताया कि उसकी मां ममता ने उसकी जैकेट धोकर पड़ोसियों के घर पर सुखाई थी। शाम को वह जैकेट

उताकर घर पर आ गई थी। बाद में उसका पड़ोसी व पड़ोसन आए और इस बात को लेकर कहासुनी कर दी। पड़ोसी ने युझे मेरा ऑटो भी उसकी दीवार से हटाने के लिए कहा तो मैंने अपना ऑटो वहां से हटाकर अपनी गली में खड़ा कर लिया। लेकिन रात

को ही पड़ोसी ड्रिंक करके आया और उसने उसके ऑटो पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। उसने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कपिल ने बताया कि ऑटो में ही सात हजार की नकदी रखी हुई थी और ऑटो के कागजात भी थे, जो जल गए हैं। कपिल की मां ममता ने बताया कि

नाबालिग भांजी पर मामी का जुल्म गला दबाकर हत्या का प्रयास, मौसी ने बुलाई पुलिस

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार प्रिंस। जिले में नाबालिग भांजी को उसकी मामी ने बड़ी ही क्रूरता से पीटा। आरोप है कि लडकी को गला दबा कर मारने का प्रयास किया गया। उसको कई बार दीवार में भी मारा। घटना के वक्त नाबालिग घर में अकेली थी। भांजी को धमकी तक दे डाली कि वह ऐसा काम करवा देगी कि तू किसी को मुंह दिखाते लायक नहीं रहेगी। लडकी किसी तरह से मामी से चंगुल छूटकर गांव के बस अड्डे पर पहुंची और वारदात की जानकारी अपनी मौसी को दी। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस लडकी को घर लेकर

मायके में ही रह रही है। यहां पर उसने अपने पैसों से मकान बनाया हुआ है। उसकी भाभी मकान के निचले हिस्से में अकेली रहती है। आरोप है कि उसकी भाभी झगड़ालू किस्म की औरत है और उसने उसके भाई और मां को भी घर से बाहर निकाला हुआ है। महिला ने बताया कि वह 12 जनवरी को अपनी बहन से मिलने के लिए सोनीपत के गांव राजलुगढ़ी गई थी। 13 जनवरी की शाम करीब 7 बजे उसकी भाभी जबरन उसके मकान में घुस गईं। वहां पर उसकी बेटी अकेली थी। उसके साथ उसने मारपीट की और उसका सिर कई बार दीवार में भी मारा।

विवाद

8 भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका बेटा कपिल ऑटो चलाता है और यही हमारी आजीविका का साधन था

जांच जारी

8 महिला ने बताया कि वह 12 जनवरी को अपनी बहन से मिलने के लिए सोनीपत के गांव राजलुगढ़ी गई थी

रन आउट होने के बावजूद मार्टिन गट्टिल को मेजा वापस, कॉलिन मुनरो ने पाकिस्तानी प्लेयर के मंसूबों पर फेरा पानी



शारजाह. क्रिकेट को यूही नहीं जेटलमेंस गेम कहा जाता है। सुई में जारी IIT20 लीग में कॉलिन मुनरो ने इसकी नज्दीक पेश की। भले ही डेव्हॉट वाइपर्स की टीम मैच हार गई, लेकिन उसके कप्तान कॉलिन मुनरो ने दिल जीत लिया। दरअसल, रविवार रात खेले गए इस मुकाबले में डेव्हॉट वाइपर्स और शारजाह वॉरियर्स की टकराव थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शारजाह वॉरियर्स ने स्कोरबोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर्स में सात विकेट खोकर 174 रन बनाए। कप्तान टीम कोहलर कैडमोर ने 68 रन की पारी खेली जबकि कीवी ओपनर मार्टिन गट्टिल 39 रन बनाकर आउट हुए।

जो डेव्हॉट के साथ 26 रन की साझेदारी के दौरान उस वक्त मैदान पर अफरा-तफरी मच गई, जब मार्टिन गट्टिल बदकिस्मती से रनआउट हो गए। इंग्लिश ब्रेटर जो डेव्हॉट ने एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव मारी, जो सीधा नॉन स्ट्राइक एंड पर छोड़े मार्टिन गट्टिल को जा लगी। मार्टिन को गेंद लगने के बाद डिफेंडर बॉलर शादाब खान के पास चली गई। पाकिस्तानी प्लेयर ने फोरन ही गिफियां बिखेर दी, इस वक्त गट्टिल कीज से बाहर थे। इस दौरान पीछे से आतम खान की आवाज भी आ रही थी- आउट कर दे- आउट कर दे। इस बीच, दर्द से कराहते हुए मार्टिन गट्टिल आउट होकर डगआउट की ओर बढ़ चुके थे कि तभी विरोधी कप्तान कॉलिन मुनरो ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने शानदार फैसला लेते हुए अपील वापस ले ली और महान खेल भावना का प्रदर्शन किया। इस दौरान कमेंटरीर प्लान विव्हिकंस ने पूरे लम्हे की तारीफ की।

Sunrisers Hyderabad के खूबसूरत बेटर ने बल्ले से मचाई तबाही, जड़ी सबसे तेज फिफ्टी, प्लेऑफ में पहुंची डरबन सुपरजाइट्स

नई दिल्ली. SA20 लीग के 22वें मैच में डरबन सुपर जाइंट्स (श्रीएसजी) ने पॉल रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। मैच में डरबन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाए।

क्लासेन ने जड़ा सबसे तेज अर्धशतक इस मैच में डरबन ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर साबित किया कि वह कैसे प्लाउंडर्स टेबल में नंबर 1 पर है। डरबन की ओर से 17वें ओवर में बल्लेबाजी करते आए हेनरिक क्लासेन ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। हेनरिक का यह अर्धशतक एस20 के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक था।



क्लासेन ने अपनी पारी में 17 गेंदों पर 294.11 की स्ट्राइक रेट से 2 चौकों और 6 छकों के साथ अर्धशतक जड़ा। क्लासेन ने 19वें ओवर में फैबियन प्लान की तीन गेंदों पर तीन छकों मारे और अपना अर्धशतक पूरा करके डोनावन फरेरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डोनावन ने एस20 लीग 2024 में ही 18 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम किया था।

आईपीएल में 2-3 साल और खेलेंगे MS Dhoni! CSK के तेज गेंदबाज ने कप्तान धोनी के कमबैक पर शेर किया फेंस की धड़कने बढ़ाने वाला अपडेट

एमएस धोनी अपनी घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। टीम के गेंदबाज टीपक चहर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात की और धोनी के आईपीएल में खेलने पर कुछ अपडेट शेयर किए। अब चहर ने कहा कि मुझे लगता है कि धोनी 2-3 साल और खेल सकते हैं लेकिन यह उनका फैसला होगा। धोनी ने आईपीएल 2023 का पूरा सीजन घुटने पर पट्टी बांधकर खेला था।

नई दिल्ली. एमएस धोनी अपनी घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और वह आईपीएल 2024 में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आईपीएल से पहले धोनी के संन्यास पर हो रही है चर्चा।

इस बीच टीम के गेंदबाज दीपक चहर Deepak Chahar ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात की और धोनी के आईपीएल में खेलने को लेकर भी कुछ अपडेट शेयर किए। आईपीएल की शुरुआत से पहले धोनी का संन्यास हमेशा ही चर्चा का विषय रहला है। पूरा सीजन पट्टी बांधकर खेला आईपीएल धोनी MS Dhoni ने आईपीएल 2023 का पूरा सीजन घुटने पर पट्टी बांधकर खेला और टीम को पांचवीं बार चैंपियन बनाया। अब चहर ने कहा कि मुझे लगता है कि धोनी के पास क्रिकेट को देने के लिए अभी काफी कुछ है, वे 2-3 साल और खेल सकते हैं।

2-3 साल और खेल सकते हैं धोनी मैंने उन्हें नेट पर बल्लेबाजी करते हुए देखा है। उन्हें इंजरी थी, जो किसी को भी हो सकती है। 24 साल के खिलाड़ी को भी वही चोट लग सकती है, जो उन्हें लगी थी। वह काफी अच्छी तरह ठीक हो गए हैं। मेरे खयाल से उन्हें 2-3 साल और खेलना चाहिए, लेकिन यह उनका फैसला होगा।

सोएसके में धोनी के बिना खेलना मुश्किल धोनी ने सभी को बताया है कि वह चैम्पियंस में अपना आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं। सिर्फ वो ही ये फैसला कर सकते हैं। हमारे लिए धोनी के बिना सोएसके के लिए खेलना काफी मुश्किल है। सभी ने सोएसके को माहौल भाई के साथ ही देखा है। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया

मैगौंग ओवल में बल्लेबाजों का होगा राज या गेंदबाज लूटेंगे महफिल, आंकड़ों के जरिए समझिए पिच का हाल

अंडर 19 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खोनाफोटोन के मैगौंग ओवल में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को लफट मिलती है। यानी बेट और बॉल के बीच में इस खाउंड पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। शूटआती ओवरों में नमी होने के कारण तेज गेंदबाज खासा प्रभाव डालते हैं। वहीं, क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी जम्बर भ्रमाल मचाते हैं। स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है।

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका की धरती पर खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में मंगलवार को टीम इंडिया की पिंडीट न्यूजीलैंड के साथ होगी। भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक खेले तीन ही मैचों में लाजवाब रहा है। वहीं, कीवी टीम को अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के हथौं 10 विकेट से करारी हार का मुंह देखा पड़ा था।

कैसी खेलती है मैगौंग ओवल की पिच?

अंडर 19 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खोनाफोटोन के मैगौंग ओवल में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है। यानी बेट और बॉल के बीच में इस खाउंड पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है।

शुरुआती ओवरों में नमी होने के कारण तेज गेंदबाज खासा प्रभाव डालते हैं। वहीं, क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी जम्बर भ्रमाल मचाते हैं। स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

मैगौंग ओवल ने अब तक कुल 35 वनडे मैचों की मेजबानी की है। इसमें से 15 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं, 18 मैचों में मैदान रनों का पीछा करने वाली टीम ने मारा है। फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर 248 का रहा है, जबकि दूसरी पारी में औसतन स्कोर 205 का है। टॉस इस मैच में भी अहम कारकदार निभा सकता है।

शानदार फॉर्म में टीम इंडिया

उदय सहरन की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में जोरदार रहा है। टीम ने टूर्नामेंट का



आगाज बांग्लादेश को 84 रन से पीटकर किया था। इसके बाद अगले मैच में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 201 से पटखनी दी थी। वहीं, आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने अमेरिका को भी 201 रन के बड़े अंतर से मात दी थी। बल्लेबाजी में भारत की ओर से सुशील खान का प्रदर्शन जानदार रहा है और वह 3 मैचों में 194 रन टोक चुके हैं, जबकि कप्तान उदय ने 174 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सीम्य पंडे 3 मैचों में 8 विकेट चटका चुके हैं।

बेटे का फर्ज निमाने के लिए गंवाया Team India से मिला मौका! SA दौरे से नाम वापस लेने पर भारतीय तेज गेंदबाज ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली.भारत के तेज गेंदबाज दीपक चहर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ Ind vs SA वनडे और टी20 दौरे से अपना नाम वापस लेने के फैसले का समर्थन किया है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वापस लिया नाम

दीपक Deepak Chahar ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरे पिता मेरे लिए सबसे पहले आते हैं। चार के पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में टीम इंडिया में शामिल नहीं हो सके।

क्या बोले चार

चहर ने कहा कि मेरे लिए मेरे पिता सबसे पहले हैं। मैं वहां सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरे पिता

आगरा में नहीं अलीगढ़ में अस्पताल में भर्ती थे। हम सब वहां रुके थे। इस दौरान मैं बस कुछ एक्सरसाइज कर पाता था। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था और इस कारण मैं अफगानिस्तान Ind vs Afg के खिलाफ सीरीज से बाहर रहा।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर रहे मेहनत

पिता के घर लौटने के बाद मैं एनसोय गया और वहां मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की, जिसके चलते मैं अब पूरी तरह से फिट हूँ। मैंने आईपीएल टूक और विश्व कप के लिए खास्ताव में कड़ी मेहनत की है।

टी 20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों के पास आईपीएल ही एक मौका है, जिसमें प्रदर्शन के दम पर वह विश्व कप की टीम में सेलेक्ट होंगे।



की वजह से किया है। अगर मैं इन हालातों में उनके साथ नहीं हूँ, तो मैं किस तरह का बेटा हूँ?

भारत में सीरीज होती तो जरूर होते शामिल

अगर सीरीज भारत Ind 1 हार में खेले जा रही होती तो मैं जरूर खेलने की कोशिश करता। इस दौरान अगर जरूरत पड़ने पर 4-5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच सकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से वापस आने में 2-3 दिन लगते हैं। चार ने आगे कहा कि मेरे पिता के साथ रहना मेरे लिए एक आसान फैसला था, कोई भी बेटा ऐसा करेगा।

अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती थे पिता

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज पर चार ने बात करते हुए कहा कि मैं 25 दिनों तक पिता के साथ अस्पताल में था। मेरे पिता

गिल के पास जो सुरक्षा, वह पुजारा के पास भी नहीं थी, पहले टेस्ट के बाद बोले कुंबले

हैदराबाद. भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल के पास टीम में जिस तरह की सुरक्षा है, वह कभी चेतेश्वर पुजारा को नहीं मिली और इस युवा बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा वरना काफी दबाव में आ जाएगा। 24 वर्ष के गिल ने पिछली 11 टेस्ट पारियों में अर्धशतक नहीं लगाया है। उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल मार्च में पहली पारी में 128 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद से उनका सर्वोच्च स्कोर 36 रन रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पहले टेस्ट में पहली पारी में 23 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में खाला भी नहीं खेल सके। भारत को पहले मैच में 28 रन से पराजय झेलनी पड़ी। कुंबले ने कहा, 'गिल को जो सुरक्षा मिली हुई है वह चेतेश्वर पुजारा को भी नहीं मिली थी जबकि उसने (पुजारा) 100 से अधिक टेस्ट खेले हैं। उन्होंने कहा, 'मैं बार बार पुजारा की बात करता हूँ क्योंकि वह कुछ समय पहले तक तीसरे नंबर पर उतरते थे। पुजारा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला और उसके बाद से शुभमन गिल तीसरे नंबर पर उतर रहे हैं।



रोहित शर्मा 2nd टेस्ट में ना करें यशस्वी जायसवाल के साथ पारी का आगाज, तयों वसीम जाफर ने दी ऐसी अनोखी सलाह

नई दिल्ली. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम के डॉ. वाय एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे है और वापसी के लिए उनके लिए यह टेस्ट मैच काफी अहम होने वाला है। टीम इंडिया को हैदराबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारतीय टीम को एक अनोखी सलाह दी है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने जब से पारी का आगाज शुरू किया है, उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है। पारी का आगाज करते हुए रोहित का



रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में काफी शानदार है, लेकिन जाफर चाहते हैं कि विशाखापट्टनम टेस्ट में रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल के साथ पारी का आगाज शुभमन गिल करें।

भारत के लिए पहले टेस्ट में विराट कोहली नहीं खेले और वह दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। विराट की वापसी तीसरे टेस्ट मैच के साथ होगी।

वसीम जाफर ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे हिसाब से दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को पारी का आगाज करना चाहिए और रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आना चाहिए। अपनी बैटिंग के लिए इंतजार करना शुभमन गिल के लिए काम नहीं कर रहा खाला खेले ही आउट हो गए।

पहले टेस्ट में कहां फिसली हाथ से बाजी? हेड कोच Rahul Dravid ने बताया मैच का टर्निंग प्वाइंट, बोले- हम एक भी शतक... नहीं

नई दिल्ली. हैदराबाद में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 202 रन बनाकर खेर हो गई। इंग्लिश टीम की ओर से टॉम हार्टले ने कहर बरपाते हुए चौथी पारी में सात भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा।

हालांकि, हेड कोच राहुल द्रविड का मानना है कि पहली पारी में एक भी बल्लेबाज द्वारा शतकीय पारी ना खेल पाने का खामियाखता टीम इंडिया को भुगतना पड़ा।

कहां फिसला हाथ से मैच?

राहुल द्रविड ने हैदराबाद टेस्ट में मिली हार के बाद पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि पहली पारी में हमने 70 रन कम बनाए। दूसरे दिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी और हमको अच्छी शुरुआत भी मिली थी, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सके। हमारे बल्लेबाज एक भी शतक नहीं लगा सके, आप समझ सकते हैं मेरा मतलब एक बड़ी शतकीय पारी से है। दूसरी पारी में खेलना हमेशा ही कठिन होता है।

पहली पारी में शतक से चूके तीन बल्लेबाज

पहली पारी में भारत की ओर से तीन बल्लेबाज शतक के करीब पहुंचे, लेकिन अपनी संचुरी पूरी करने में



भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच में 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। रोहित की पलटन 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 202 रन बनाकर आँलआउट हो गई। टीम हारने के आगे भारतीय बेटर्स ने दूसरी पारी में आसानी से घुटने टेक दिए। हार्टले ने कहर बरपाते हुए 7 विकेट अपने नाम किए।

नफ़ाम रहे। यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाए आउट हुए, तो केएल राहुल 86 और रविंद्र जडेजा ने 87 रन की पारी खेली।

फ्लॉप रहा भारतीय बैटिंग ऑर्डर

इंग्लैंड से मिले 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 202 रन बनाकर आँलआउट हुई। इंग्लैंड के स्पिनर्स के आगे इंडियन बेटर्स ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए।

यशस्वी जायसवाल महज 15 रन बनाकर चलते बने, जबकि केएल राहुल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नफ़ाम रहे और 22 रन बनाकर चलते बने। जडेजा और श्रेयस अय्यर ने भी अपने प्रदर्शन से बेहद निराश किया। अक्षर पटेल भी सिर्फ 17 रन ही बना सके। कप्तान रोहित ने 39 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी टॉम हार्टले के स्पिन जाल में उलझकर रह गए।

